

वेरमोंट स्वास्थ्य विभाग COVID-19 प्रतिरक्षण दूसरी खुराक सहमति प्रपत्र

रोगी का नाम: _____ जन्म तिथि: _____

सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन (CDC) द्वारा प्रकाशित:

COVID-19 वैक्सीन उत्पादों की परस्पर विनिमेयता

वर्तमान में, FDA द्वारा अधिकृत किसी भी COVID-19 वैक्सीन का उपयोग संकेत दिए जाने पर किया जा सकता है; ACIP किसी भी उत्पाद की वरीयता नहीं बताता है। हालांकि, COVID-19 वैक्सीन परस्पर विनिमेय करने योग्य नहीं हैं। मिश्रित-उत्पाद श्रृंखला की सुरक्षा और प्रभावशीलता का मूल्यांकन नहीं किया गया है। श्रृंखला की दोनों खुराकों को एक ही उत्पाद से पूरा किया जाना चाहिए।

उन असाधारण स्थितियों में जिनमें पहली खुराक के रूप में दिया गया mRNA वैक्सीन उत्पाद निर्धारित नहीं किया जा सकता है या उपलब्ध नहीं है, mRNA COVID-19 टीकाकरण श्रृंखला को पूरा करने के लिए किसी भी उपलब्ध mRNA COVID-19 वैक्सीन की खुराक को 28 दिनों के न्यूनतम अंतराल पर दिया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में जहां एक ही mRNA वैक्सीन उत्पाद अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है, किसी दूसरे उत्पाद का उपयोग करके मिश्रित श्रृंखला लेने के बजाय उसी उत्पाद की दूसरी खुराक को लेने के लिए कुछ देरी (6 सप्ताह तक) करना बेहतर होता है। यदि किन्हीं स्थितियों में (या अनजाने में) विभिन्न mRNA COVID-19 वैक्सीन उत्पादों की दो खुराक दी जाती हैं, तो उस समय किसी भी उत्पाद की कोई अतिरिक्त खुराक की सिफारिश नहीं की जाती है। ऐसे व्यक्तियों को mRNA वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के ≥ 2 सप्ताह बाद COVID-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीकाकृत माना जाता है।

mRNA COVID-19 वैक्सीन के बाद लिए गए Janssen COVID-19 वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशीलता प्रमाणित नहीं हुई है। हालांकि, सीमित असाधारण स्थितियों में, जहां एक रोगी को mRNA COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली, लेकिन mRNA COVID-19 वैक्सीन के एक ही या अलग-अलग (उदाहरण के लिए, विपरीत संकेत के कारण) वैक्सीन से श्रृंखला को पूरा करने में असमर्थ है, तो mRNA COVID-19 वैक्सीन खुराक लेने से कम से कम 28 दिनों के अंतराल पर Janssen COVID-19 वैक्सीन की एक खुराक लेने पर विचार किया जा सकता है। mRNA COVID-19 वैक्सीन की एक खुराक के बाद Janssen COVID-19 वैक्सीन लेने वाले रोगियों को, एक मान्य, एकल-खुराक Janssen टीकाकरण प्राप्त माना जाना चाहिए – न कि मिश्रित टीकाकरण श्रृंखला वाला- और Janssen वैक्सीन की एकल खुराक लेने के ≥ 2 सप्ताह बाद COVID-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीकाकृत माना जाता है।

- मैंने क्लिनिक के कर्मचारियों को सूचित किया है कि मैं (या उपरोक्त रोगी) जो मानता हूँ कि वह सही और सटीक COVID-19 वैक्सीन उत्पाद (यानी फाइजर-बायोएनटेक (Pfizer-BioNTech), मॉडर्ना (Moderna)) है जिसे पहली खुराक के रूप में लिया गया है।
- मैंने क्लिनिक के कर्मचारियों को सूचित किया है कि मैं (या उपरोक्त रोगी) जो सही और सटीक तारीख मानता हूँ जिस दिन COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली।

वेरमोंट स्वास्थ्य विभाग COVID-19 प्रतिरक्षण दूसरी खुराक सहमति प्रपत्र

- मैं समझता/ती हूं कि वेरमोंट स्वास्थ्य विभाग और यह टीकाकरण क्लिनिक मुझे (या उपरोक्त रोगी को) दी गई पहली खुराक (यानी फाइजर-बायोएनटेक(Pfizer-BioNTech), मॉडर्ना(Moderna)) की सटीकता को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।
- मैंने COVID-19 वैक्सीन उत्पादों के परस्पर विनिमेयता के बारे में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (CDC) की उपरोक्त सामग्रियों को पढ़ा है जो दूसरी खुराक में लिए जाने वाले टीके के प्रकार को बदलने की बात करते हैं।
- मैं समझता/ती हूं कि COVID-19 वैक्सीन के दो अलग-अलग प्रकारों (उदाहरण के लिए पहली खुराक के लिए मॉडर्ना(Moderna) और दूसरी खुराक के रूप में फाइजर-बायोएनटेक(Pfizer-BioNTech) लेना) को लेने पर सुरक्षा और प्रभावशीलता का अध्ययन और निर्धारण नहीं किया गया है।

रोगी के हस्ताक्षर: _____

सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर की तिथि:

माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर* (यदि रोगी 18 वर्ष से कम हो)

*यदि अवयस्क किसी की निगरानी में है, तो अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

माता-पिता/कानूनी अभिभावक का नाम (कृपया प्रिंट करें):

माता-पिता/कानूनी अभिभावक का दिन का फोन नंबर**:

**यदि माता-पिता/कानूनी अभिभावक क्लिनिक में उपस्थित नहीं होंगे।